



दिनांक- 20.08.2019

झाँसी पुलिस

मीडिया सेल, पुलिस कार्यालय
जनपद झाँसी



एसएसपी झाँसी डॉ श्री ओ.पी. सिंह के निर्देशन में चर्चित गुरसराय लूटकाण्ड में सम्मिलित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर शत प्रतिशत की गयी बरामदगी

चर्चित गुरसराय लूटकाण्ड की घटना से सम्बंधित 25 हजार रुपये का इनामिया शातिर अभियुक्त सोने चाँदी के आभूषणों व मय असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी डा0 श्री ओ0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राहुल मिठास एवं क्षेत्राधिकारी गरौठा श्री शैलेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना गुरसराय एवं थाना टोडीफतेहपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना गुरसराय अंतर्गत व्यवसायी के घर घटित लूट की घटना में संलिप्त एवं प्रकाश में आया 25 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त संदीप कुशवाहा पुत्र गोविन्द कुशवाहा निवासी मोहल्ला उन्नाव गेट मेवातीपुरा थाना कोतवाली झाँसी को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त के कब्जे से लूटी गयी लूटे गये 04 किलो 320 ग्राम चाँदी के आभूषण एवं 50 ग्राम सोने के आभूषण इस्तेमाली तथा एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद कारतूस बरामद हुआ है। उपरोक्त घटित घटना में संलिप्त सभी 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 193 ग्राम सोने के आभूषण एवं 18 किलो 680 ग्राम चाँदी के आभूषण बरामद तथा 02 अदद तमंचा मय 04 कारतूस व एक अदद मोटर साईकिल बरामद की गयी है।

घटना से सम्बंधित पूर्व में हुयी बरामदगी एवं गिरफ्तारी का विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.07.2019 की शाम करीब 07:00 बजे थाना गुरसराय अंतर्गत कस्बा गुरसराय में व्यवसायी श्री उदय सिंघई के घर अज्ञात बदमाशों द्वारा असलहों से लैस होकर लूट की घटना कारित कर क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया था जिस सम्बन्ध में थाना गुरसराय में वादी श्री उदय सिंघई निवासी कस्बा गुरसराय की तहरीरी सूचना पर मु०अ०स० 125/19 धारा 394,452 भादवि बनाम अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त घटित घटना की चुनौती को स्वीकार करते हुए एवं घटना के शीघ्र श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राहुल मिठास के निर्देशन में तत्कालीन प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम, तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना गुरसराय टीम, प्रभारी निरीक्षक थाना गरौठा टीम, तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना लहचूरा झाँसी की टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए घटना के अनावरण हेतु लगाया गया था जिसपर पुलिस टीम द्वारा अथक परिश्रम कर घटना के संलिप्त 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 193 ग्राम सोने के आभूषण एवं 18 किलो 680 ग्राम चाँदी के आभूषण बरामद तथा 02 अदद तमंचा मय 04 कारतूस व एक अदद मोटर साईकिल बरामद की गयी विवरण निम्नवत है-

- दिनांक 24.07.19 को उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त 1- राजकुमार खगार पुत्र सुमेर सिंह नि० सदर मजरा कैथा थाना राठ जिला हमीरपुर उम्र करीव 23 वर्ष, 2- रोहित उर्फ रणकेन्द्र खंगार पुत्र स्व०विनोद कुमार उर्फ कल्लू नि० कैथा थाना राठ जिला हमीरपुर उम्र करीव 22 वर्ष, 3- आनन्द पटेल पुत्र कैलाश नि०अडजरा थाना गुरसराय जि० झाँसी उम्र करीव 24 वर्ष, 4- शिवम पटेल पुत्र वृजेश पटेल नि० वुढाउली थाना सकरार जि० झाँसी उम्र करीव 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है अभियुक्तों के कब्जे से लूट की चाँदी 10 कि०ग्रा 860 ग्राम जेवरात इस्तेमाली व स्वर्ण आभूषण 48 ग्रा.900मि.ग्रा. तथा 2 अदद तमंचा 315 बोर मय दो खोखा व चार जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। बरामद माल की कीमत करीब 07 लाख रुपये बरामद किये गये थे।
- दिनांक 04-08-19 को घटना में संलिप्त एक अन्य अभियुक्त- दीपक अहिरवार पुत्र गोपाल अहिवार निवासी वूढा थाना सीपरी वाजार जिला झाँसी को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से लूटी गयी 02 कि.ग्रा चाँदी पुरानी इस्तेमाली वरामद की गयी
- दिनांक 06.08.2019 को अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव उर्फ सीपू उर्फ करन पुत्र जसकरन यादव निवासी ग्राम हरदू थाना बेला जिला औरैया को गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से थाना स्थानीय के मु० अ० स० 125/19 धारा 394/452/411/120 IPC से सम्बन्धित लूटे गये सोने चाँदी के आभूषण जिसमें 01 अदद सोने की चेन, 02 अदद अंगूठी सोने की, 01 अदद हार सोने का वजनी लगभग 43 ग्राम 415 मि.ग्रा. 01 झाँज चाँदी, 03 नग पायल विछिया चाँदी की व एक अदद मोटर साईकिल बरामद हुयीं है। बरामद सोने चाँदी के आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 02 लाख 50 हजार रुपये है।

गिरफ्तार/सहयोग करने वाली पुलिस टीम -

- 1- श्री लोकेन्द्र त्रिपाठी थानाध्यक्ष गुरसराय मय हमराह उ.नि.सुनील कुमार सिंह, का. राकेश कुमार दीक्षित, का० प्रशांत कुमार थाना गुरसराय झाँसी
- 2- श्री अवध नारायण पाण्डेय, थानाध्यक्ष थाना टोडीफतेहपुर झाँसी, मय हमराह का. सत्यवीर सिंह, का. उमाशंकर थाना टोडीफतेहपुर झाँसी।

